

एफ.संख्या जीए-30011/16/2021-सा.प्रशा-एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

तृतीय तल, एफडीए भवन, कोटला रोड,

नई दिल्ली-110002

दिनांक 4 फरवरी, 2022

निविदा सूचना

एफएसएसएआई, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 में विविध सिविल और अन्य कार्य करने के लिए बोली का आमंत्रण

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों के साथ पंजीकृत विख्यात और अनुभवी ठेकेदारों, जिन्हें दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो, से इस आरएफपी के भाग-II में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार एफडीए भवन क्षेत्र, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 में सिविल एवं विद्युत कार्य करने के लिए ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती हैं।

02. बोली दो भागों अर्थात तकनीकी और वाणिज्यिक/मूल्य बोली में प्रस्तुत की जानी है। तकनीकी बोली में बोली प्रत्याभूति घोषणा (बीएसडी), सभी शर्तों और नियमों की स्वीकारोक्ति के संबंध में वचन, अर्हता दस्तावेज, स्टाम्प/हस्ताक्षरित आरएफपी और मूल्य बोली सम्मिलित होंगी जो निर्धारित प्ररूप (ऑनलाइन पोर्टल पर पृथक रूप से संलग्न मूल्य बोली के लिए बीओक्यू) के अनुसार होगी।

03. निविदा दस्तावेज में दी गई विस्तृत विशिष्टियों का ब्यौरा, नियम एवं शर्तें एफएसएसएआई की वैबसाइट www.fssai.gov.in और सीपीपी पोर्टल अर्थात सरकार के ई-खरीद प्रणाली etenders.gov.in पर दी गई है। इन्हें सामान्य प्रशासन प्रभाग, एफएसएसएआई, तृतीय तल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली से भी निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

04. विधिवत भरे गए निविदा दस्तावेज संबंधित सहायक दस्तावेज के साथ निदेशक (सामान्य प्रशासन), एफएसएसएआई, तृतीय तल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को संबोधित किए जाएं और इन्हें 02 मार्च, 2022 तक 1100 बजे तक या उससे पहले ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए।

05. **पत्राचार का पता:** सहायक निदेशक (सामान्य प्रशासन), भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, तृतीय तल, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 (ई-मेल gadmin@fssai.gov.in)

निदेशक(सामान्य प्रशासन)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण